

**\*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01.10.2021 जनपद देवरिया\***

पुलिस अधीक्षक देवरिया डॉ श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान दिनांक 30.09.2021 को समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के क्रम में अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत संभावित स्थानों पर दबिस देते हुए कुल 170 लीटर अवैध कच्ची/अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध विभिन्न थानों पर कुल 18 अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*02.थाना लार पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-\***

दिनांक 30.09.2021 को थानाध्यक्ष लार मय फोर्स देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर रामजानकी मार्ग मेहरौना घाट से एक व्यक्ति को एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता **संजय राजभर पुत्र रामनरेश राजभर सा0 मेहरौना घाट थाना लार देवरिया** बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद करते हुये रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*03.थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा 01 किलो 340 ग्राम अवैध गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया:-\***

दिनांक-30.09.2021 को थानाध्यक्ष सलेमपुर के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर नदावर पुल के पास से एक व्यक्ति के पास से 01 किलो 340 ग्राम अवैध नाजायज गांजा बरामद किया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछे जाने पर उनके द्वारा अपना नाम पता **तारकेश्वर कुशवाहा पुत्र स्व0 रमायन सा0 वार्ड न0 7 सुगही थाना सलेमपुर देवरिया** बताया। उनके पास बरामद 01 किलो 340 ग्राम अवैध गांजा को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*04.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-\***

दिनांक 30.09.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 02 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है।

► **थाना मदनपुर-** मु0अ0सं0 109/2020 धारा 363 भा0द0वि0 नाम पता अभियुक्त 01.संदीप प्रसाद पुत्र रविन्द्र प्रसाद सा0 नई खास थाना भलुअनी जनपद देवरिया।

► **थाना भलुअनी-** मु0अ0सं0 117/2021 धारा 363 भा0द0वि0 नाम पता अभियुक्त 01.पंकज पुत्र रामाश्रय सा0 पचौहा थाना भलुअनी जनपद देवरिया।

**\*05. निरोधात्मक कार्यवाही:-\***

दिनांक 30.09.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

► जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 29 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

**\*06. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही:-\***

दिनांक 30.09.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

► वाहन चेकिंग के दौरान 67 वाहनों से 69,500 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।